



हिंदी पखवाड़ा कार्यक्रम कार्यवृत्त

14 से 30 सितंबर 2021

माननीय कुलपति महोदय के निर्देशन में चंद्रशेखर आजाद कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय में तक हिंदी पखवाड़े का आयोजन किया गया। हिंदी पखवाड़े के अंतर्गत-

1. विभिन्न प्रतियोगिताओं का आयोजन जैसे आलेख लेखन, प्रतियोगिता, निबंध प्रतियोगिता, वाद-विवाद प्रतियोगिता, पोस्टर प्रतियोगिता, कविता पाठ, शब्दावली लेखन प्रतियोगिता, सारांश लेखन प्रतियोगिता, पत्र लेखन प्रतियोगिता एवं अनुवाद प्रतियोगिता कराई गई। इसके अंतर्गत विश्वविद्यालय के वैज्ञानिक, शिक्षक शिक्षिकाओं, कर्मचारियों, एवं छात्र छात्राओं ने बहुत उत्साह एवं गर्व के साथ प्रतिभाग किया।

2. हिंदी पखवाड़े के समापन अवसर पर बतौर मुख्य मुख्य अतिथि विश्वविद्यालय के प्रबंध मंडल की सम्मानित सदस्या श्रीमती पूनम द्विवेदी जी उपस्थित रहीं, जबकि कार्यक्रम की अध्यक्षता विश्वविद्यालय के कुलपति डॉक्टर डीआर सिंह ने की।

3. हिंदी पखवाड़े के समापन अवसर पर मुख्य अतिथि श्रीमती पूनम द्विवेदी जी ने कहा कि हमारे देश में दो भाषाएं हिंदी एवं संस्कृत स्तंभ के रूप में कार्य करती हैं। उन्होंने कहा कि पूरे विश्व में सबसे ज्यादा बोली जाने वाली तीन भाषाओं में हिंदी भी एक है। उन्होंने यह भी बताया कि जब हिंदी में बात करते हैं तो हमारी संस्कृति का प्रतिबिंब झलकता है। इसलिए विदेशी लोग भी भारतीय संस्कृति को अपना रहे हैं उन्होंने कहा कि विश्व की पहली हिंदी कॉन्फ्रेंस 1975 में नागपुर में हुई थी तथा हिंदी साहित्य के इतिहास की रचना भी पूर्व में विदेशी लेखकों द्वारा की गई। उन्होंने कहा कि मैं उन जजबों को प्रणाम करती हूँ जिन्होंने हिंदी उत्थान के लिए कार्य किए हैं तथा हिंदी के विस्तार के लिए हम संघर्षरत हैं और आगे भी रहेंगे।

4. कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे विश्वविद्यालय के कुलपति डॉक्टर डीआर सिंह ने पुरस्कार प्राप्त छात्र-छात्राओं को शुभकामनाएं भी दी तथा कहा कि हिंदी को अपनी आम बोलचाल भाषा में अवश्य अपनाएं। प्रतियोगिता में सफल छात्र-छात्राओं को स्मृति चिन्ह एवं प्रमाण पत्र देकर मुख्य अतिथि एवं कुलपति द्वारा सम्मानित किया गया। प्रथम, द्वितीय एवं तृतीय पुरस्कार प्रत्येक प्रतियोगिता में छात्र-छात्राओं को दिए गए।

5. प्रथम पुरस्कार विजेता आलेख लेखन में श्रद्धा अवस्थी, निबंध में प्रभा कुशवाहा, वाद विवाद प्रतियोगिता में अनुष्का पांडे, पोस्टर प्रतियोगिता में आयशा, कविता पाठ में अंकिता वर्मा, पत्र लेखन में निधि सिंह, पर्यायवाची में पूजा यादव, अनुवाद में रूपांति वर्मा, शब्दावली लेखन में सचना शाह और सारांश लेखन में नैसी वर्मा ने प्रथम स्थान प्राप्त किए।

6. कार्यक्रम में अतिथियों का स्वागत अध्यक्ष कृषि संकाय डॉक्टर धर्मराज सिंह ने किया और अंत में धन्यवाद अधिष्ठाता गृह विज्ञान डॉ वेदरतन ने किया। इस अवसर पर अधिष्ठाता लखीमपुर खीरी ने भी हिंदी पर अपने विचार रखे इस अवसर पर विश्वविद्यालय के सभी विभागाध्यक्ष एवं संकाय सदस्य उपस्थित रहे। कार्यक्रम का संचालन प्रभारी हिंदी भाषा प्रकोष्ठ डॉ विनीता सिंह ने किया।